

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3299

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

डिजिटल लेनदेन इंटरफेस प्लेटफार्म

3299. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लेनदेन की संख्या कई गुना बढ़ गई है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहकों के लिए उपलब्ध इंटरफेस प्लेटफॉर्म की संख्या और लेनदेन की संख्या कितनी है; और
- (ग) क्या अन्य देश भी भुगतान के इन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी प्राधिकरणों को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान लेनदेन का मोड-वार विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग): सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रुपये कार्ड नेटवर्क के वैश्विक विस्तार को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। इन प्रयासों में अंतर-परिचालनीय आधार पर तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ना तथा अन्य देशों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की व्यवस्था करना शामिल है। वर्तमान में यूपीआई 7 देशों में कार्य कर रहा है (यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरीशस, फ्रांस, और श्रीलंका) और रुपये कार्ड की स्वीकृति 6 देशों में है (नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस और मालदीव)।

इस तरह की सुविधा से न केवल यथा समय और कम लागत पर सीमा पार भुगतान हो सकेगा, बल्कि भारतीय पर्यटकों और छात्रों को विदेशों में निर्बाध भुगतान करने का लाभ भी मिलेगा।

अनुबंध-I

डिजिटल भुगतान	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2021-22	
	संख्या (लाख)	मूल्य (करोड़ रुपए)	संख्या (लाख)	मूल्य (करोड़ रुपए)	संख्या (लाख)	मूल्य (करोड़ रुपए)
क्रेडिट ट्रांसफर - आरटीजीएस	2,700	17,08,86,670	2,426	14,99,46,286	2,078	12,86,57,516
ईपीएस (निधि का अंतरण)	4	261	6	356	10	575
एपीबीएस	25,888	3,90,743	17,834	2,47,535	12,573	1,33,345
आईएमपीएस	60,053	64,95,652	56,533	55,85,441	46,625	41,71,037
एनएसीएच	32,653	32,03,873	32,760	28,22,034	29,513	23,08,326
एनईएफटी	72,640	3,91,36,014	52,847	3,37,19,541	40,407	2,87,25,463
यूपीआई+यूएसएसडी	13,11,295	1,99,95,086	8,37,144	1,39,14,932	4,59,561	84,15,900
भीम आधार पे	194	6,112	214	6,791	228	6,113
एनईटीसी (बैंक खातों से संबंध)	1,629	2,777	1,626	2,601	1,207	1,689
क्रेडिट कार्ड	35,610	18,31,134	29,145	14,32,255	22,399	9,71,638
डेबिट कार्ड	22,860	5,92,429	34,179	7,19,989	39,384	7,30,213
प्रीपेड भुगतान लिखत	78,775	2,83,048	74,667	2,87,111	65,783	2,79,416
योग	16,44,302	24,28,23,799	11,39,382	20,86,84,872	7,19,768	17,44,01,233
